

UF-10503

**B.Com. (Part-III) Term End
Examination, 2023-24
Paper-II
Management Accounting**

Time : Three Hours] [Maximum Marks : 75

नोट : सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Attempt all questions. All questions carry equal marks.

इकाई-I / Unit-I

1. प्रबंधकीय लेखांकन को परिभाषित करें। प्रबंधकीय लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में अन्तर स्पष्ट करें।
Define management accounting.
Differentiate between management accounting and financial accounting?

UF-10503

(Turn Over)

(2)

अथवा / OR

निम्नलिखित सूचनाओं का प्रयोग कर आर्थिक चिह्न तैयार करें:

Prepare balance sheet by using following information:

- | | |
|--|--------|
| (i) चालू अनुपात
Current ratio | 2.5 |
| (ii) तरल अनुपात
Liquid ratio | 1.5 |
| (iii) स्थायी सम्पत्ति/स्वामित्व कोष अनुपात
Fixed assets/proprietors found ratio | 0.75 |
| (iv) कार्यशील पूँजी
Working capital | ₹60000 |
| (v) संचय एवं आधिक्य
Reserve and surplus | ₹40000 |
| (vi) बैंक अधिविकर्ष
Bank overdraft | ₹10000 |

दीर्घकालीन ऋण एवं काल्पनिक सम्पत्तियाँ नहीं हैं।

There is no long term loan and fictitious assets.

UF-10503

(Continued)

(3)

इकाई-II / Unit-II

2. रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है? कोष प्रवाह विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण में अन्तर स्पष्ट करें।

What is cash flow statement? Clarify the difference between fund flow statement and cash flow statement?

अथवा / OR

निम्नलिखित सूचनाओं से कोष प्रवाह विवरण तैयार करें:-

दायित्व	2021	2022	संपत्ति	2021	2022
	₹	₹		₹	₹
लेनदार	20000	25000	रोकड़	20000	15000
अल्पकालीन ऋण	50000	60000	देनदार	35000	58000
अंश पूँजी	160000	200000	रहत्या	50000	70000
लाभ हानि खाता	5000	18000	मशीन	50000	80000
			भवन	80000	80000
योग:-	235000	303000	योग:-	235000	303000

मशीन पर ह्रास के लिए प्रावधान 2021 एवं 2022 में क्रमशः ₹10000 एवं ₹15000 था। एक मशीन जिसकी लागत ₹10000 (संचित ह्रास ₹4000) ₹3000 में बेची गई।

UF-10503**(Turn Over)**

(4)

Prepare funds flow statement from following information:-

Liabilities	2021	2022	Assets	2021	2022
	₹	₹		₹	₹
Creditors	20000	25000	Cash	20000	15000
Short term loan	50000	60000	Debtors	35000	58000
Share capital	160000	200000	Stock	50000	70000
Profit and loss a/c	5000	18000	Machine	50000	80000
			Building	80000	80000
Total:-	235000	303000	Total:-	235000	303000

Provision for depreciation on machine for 2021 and 2022 is ₹10000 and ₹15000 respectively. A machine costing ₹10000 was sold for ₹3000 (accumulated depreciation thereon ₹4000).

इकाई-III / Unit-III

3. सीमांत लागत क्या है? सीमांत लागत के व्यावहारिक उपयोगिता का उल्लेख करें।

What is marginal costing? Mention the practical utility of marginal costing.

UF-10503**(Continued)**

(5)

अथवा / OR

दिया गया है:-

स्थिर लागत	₹45,000
विक्री मूल्य प्रति इकाई	₹60
परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई	₹40

- (i) खण्ड सम बिन्दु रकम एवं इकाई में निकालें
(ii) अगर इच्छित लाभ ₹15000 है। तो बिक्री की रकम क्या होगी?
(iii) अगर बिक्री ₹105000 है तो लाभ क्या होगा?

Given that:-

Fixed cost	₹45,000
Selling price per unit	₹60
Variable cost per unit	₹40

- (i) Calculate break even point in amount and in units.
(ii) If desired profit is ₹15000, then what will be amount of sales?
(iii) If sales is ₹105000 then what will be profit?

UF-10503

(Turn Over)

(6)

इकाई-IV / Unit-IV

4. उत्तरदायित्व लेखांकन क्या है? इसके महत्व एवं सीमाओं को लिखें।
What is responsibility accounting?
Mention its importance and limitation.

अथवा / OR

X लिमिटेड 60% क्षमता पर 6000 इकाइयों बनाती है। 6000 इकाइयों की निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 7000 एवं 8000 इकाइयों के लिए लोचदार बजट बनायें:-

	₹
सामग्री	60000
मजदूरी	36000
प्रत्यक्ष व्यय	12000
कारखाना उपरिव्यय 60% स्थिर	30000
प्रशासकीय व्यय स्थिर	10000
विक्री व्यय 40% स्थिर	10000

X. Ltd produces 6000 units at 60% capacity. Prepare a flexible budget for 7000 and 8000 units on the basis of following information of 6000 units.

UF-10503

(Continued)

(7)

	₹
Material	600000
Wages	360000
Direct expenses	120000
Factory overhead 60% fixed	300000
Administrative expences fixed	100000
Selling expences 40% fixed	100000

इकाई-V / Unit-V

5. श्रम विचलन क्या है? इसके कितने प्रकार हैं?
What is labour variance? What are its different types.

अथवा / OR

आपके पास निम्न सूचनाएँ हैं

- (i) 80 क्रिगा उत्पादित माल के लिए कच्ची सामग्री 100क्रिगा
(ii) कच्ची सामग्री की प्रमाणित कीमत ₹5 प्रति क्रिगा
(iii) वास्तविक स्थिति:-
(a) कुल उत्पादित माल 320000 क्रिगा
(b) प्रयुक्त कच्ची सामग्री 360000 क्रिगा
(c) कच्ची सामग्री की लागत ₹1872000

UF-10503

(Turn Over)

(8)

गणना करें:-

- (i) सामग्री लागत विचलन
(ii) सामग्री कीमत विचलन
(iii) सामग्री मात्रा विचलन

You have the following information:-

- (i) Raw material for production of 80 kgs of produced goods 100 kgs.
(ii) Standard price of raw material Rs 5 per kg.
(iii) Actual position:-

- (a) Total produced goods 320000 kgs
(b) Raw materials used 360000 kgs
(c) Cost of raw material ₹1872000

Calculate:-

- (i) Material cost variance
(ii) Material price variance
(iii) Material quantity variance

UF-10503